



# उचित समय पर सही पाठ करना

जीवन में यदि किसी भी प्रकार का संकट, मन अशांत, परिवार में कलह, किसी भी प्रकार की बाधा, बीमारी, आदि के लिए निम्नलिखित पाठ में से स्पर्श करके आप पाठ कर सकते हैं।

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. शक्ति विहीन होने पर:      | दुर्गा सप्तशती का पाठ     |
| 2. मन अशांत होने पर:         | श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ   |
| 3. प्रतिष्ठा के लिए:         | रामचरितमानस का पाठ        |
| 4. परिवार में कलह होने पर:   | श्रीसत्यनारायण कथा        |
| 5. किसी भी प्रकार की बाधा:   | बजरंग बाण का पाठ          |
| 6. धन की समस्या होने पर:     | कनकधारा स्तोत्र का पाठ    |
| 7. बीमारी के लिए:            | महामृत्युंजय मंत्र का पाठ |
| 8. शत्रुओं से मुक्ति के लिए: | दुर्गा चालीसा का पाठ      |
| 9. कर्ज से मुक्ति के लिए:    | ऋणमोचन मंगल स्तोत्र       |
| 10. आत्मविश्वास की कमी:      | हनुमान चालीसा             |